

सं. 25: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2025		2026				
		जन. 31	दिसं. 26	जन. 2	जन. 9	जन. 16	जन. 23	जन. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	26554	7728	8147	5770	7282	8940	9423	11852
1.2 प्राथमिक व्यापारी	25258	13506	9748	9936	11832	13036	13956	12338
1.3 राज्य सरकारें	40315	78400	115495	115295	108195	102535	92335	81335
1.4 अन्य	115688	107166	86005	81195	79786	78925	79421	80610
2. 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	44887	36704	38754	34051	39165	40727	41116	39614
2.2 प्राथमिक व्यापारी	62218	51382	47594	46065	49893	54800	60364	64620
2.3 राज्य सरकारें	11078	8243	8744	8744	7744	7464	7264	7264
2.4 अन्य	104994	85014	88952	89184	86242	85773	85820	89066
3. 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	72304	73685	71002	63309	63227	63830	62136	63543
3.2 प्राथमिक व्यापारी	86939	109263	85326	86246	91341	92895	96615	98996
3.3 राज्य सरकारें	37389	36794	43392	43230	43059	42282	41257	38336
3.4 अन्य	162757	153053	161972	160745	155732	153574	151548	148760
4. 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	188072	271755	168003	104703	209056	186337	229929	215805
4.4 अन्य	572	694	835	496	103	585	2228	548
कुल खज़ाना बिल	790381	760937	765131	743769	743498	744781	741256	736334
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर) #								

#: 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल, 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे बिक्री योग्य नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है,

क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।